

# टिप्पणी तथा आदेश

पृष्ठ .....

पत्रांक:- 1232/वि0जा0वि0मं0/मेरठ/ई-निविदा प्रकाशन  
विषय:-ई-निविदा प्रकाशन हेतु अनुमोदन के सम्बन्ध में।

दिनांक:- 13/08/2024

मुख्य अभियन्ता (जानपद)  
पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0,  
मेरठ।

महोदय,

सादर संज्ञान में लाना है कि अधोलिखित तालिका में इंगित जानपदीय कार्यों को सम्पादित कराने हेतु बिजनेस प्लान-2024-25 के अन्तर्गत अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत कार्यशाला मण्डल, मेरठ द्वारा प्रस्तावित किया गया था, जिसकी स्वीकृति निदेशक मण्डल की 162वीं बैठक में बिजनेस प्लान-2024-25 के तहत प्राप्त होने की सूचना से अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत कार्यशाला मण्डल, मेरठ के कार्यालय पत्रांक संख्या 326 दिनांक 13.06.2024 के द्वारा सूचित किया गया है। जिसका विवरण निम्नवत है:-

| क्र.सं. | कार्य का नाम                                                                                                                                                                                                                                         | अनुमानित लागत (जी.एस.टी. सहित) रु0 लाख में |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1.      | विद्युत परिवर्तक मरम्मत कार्यशाला बड़ौत जनपद बागपत में स्टोर रूम, अवर अभियन्ता कक्ष एवं अन्य विविध जानपदीय कार्य।                                                                                                                                    | 25.00                                      |
| 2.      | विद्युत कार्यशाला विक्टोरिया पार्क, मेरठ पर 1 नग शैड के निर्माण कार्य एवं 05 एम.टी. क्षमता की नई क्रेन की स्थापना इत्यादि अन्य विविध जानपदीय कार्य।                                                                                                  | 103.00                                     |
| 3.      | नोएडा जोन जिला गौतमबुद्धनगर पर नये ट्रान्सफार्मर मरम्मत कार्यशाला हेतु शैड (05 एम0टी0 नई क्रेन स्थापना सहित), स्टोर रूम, सहायक अभियन्ता कक्ष, अवर अभियन्ता कक्ष, गार्ड रूम, फायर फाइटिंग सिस्टम, सुरक्षा दीवार, सड़क एवं अन्य जानपदीय निर्माण कार्य। | 350.29                                     |
| 4.      | विद्युत कार्यशाला गाजियाबाद पर शैड (05 एम0टी0 नई क्रेन स्थापना सहित), स्टोर रूम, अवर अभियन्ता कक्ष, टेस्टिंग रूम, गार्ड रूम, फायर फाइटिंग सिस्टम, ऑयल टैंक एवं अन्य जानपदीय निर्माण कार्य।                                                           | 220.35                                     |
| 5.      | विद्युत कार्यशाला हाईडिल कालोनी जिला बुलन्दशहर पर शैड (05 एम0टी0 नई क्रेन स्थापना सहित), स्टोर रूम, टेस्टिंग रूम, सहायक अभियन्ता कक्ष, गार्ड रूम, कंट्रोल पैनल रूम, फायर फाइटिंग यूनिट एवं अन्य जानपदीय निर्माण कार्य।                               | 195.00                                     |
| 6.      | विद्युत परिवर्तक मरम्मत कार्यशाला घुन्ना जिला सहारनपुर पर अतिरिक्त स्टोर रूम एवं कार्यालय भवन के निर्माण का कार्य।                                                                                                                                   | 45.00                                      |
| 7.      | विद्युत परिवर्तक मरम्मत कार्यशाला, मुजफ्फरनगर में आग लगने से क्षतिग्रस्त हुए द्विमजिला भवन को तोड़कर स्टोर रूम एवं बाइडिंग रूम के निर्माण का कार्य।                                                                                                  | 25.00                                      |
| 8.      | विद्युत परिवर्तक मरम्मत कार्यशाला थाना भवन, जिला शामली पर स्टोर रूम एवं कार्यालय भवन का निर्माण कार्य एवं टीन शैड की छतों की मरम्मत का कार्य।                                                                                                        | 23.00                                      |
| 9.      | विद्युत कार्यशाला रामपुर में स्टोर रूम, मिट्टी भराव एवं अन्य जानपदीय कार्य।                                                                                                                                                                          | 25.00                                      |
| 10.     | विद्युत कार्यशाला मण्डल मेरठ के अन्तर्गत 15 नग कार्यशालाओं पर फायर फाइटिंग सिस्टम की स्थापना से सम्बन्धित कार्य के अपग्रेड करने का कार्य।                                                                                                            | 195.00                                     |
| 11.     | विद्युत कार्यशाला मण्डल मेरठ के अन्तर्गत 15 नग कार्यशालाओं में अग्नि दुर्घटना की रोकथाम हेतु फायर स्मोक डिटेक्टर सिस्टम स्थापित करने का कार्य।                                                                                                       | 100.00                                     |
|         | कुल योग                                                                                                                                                                                                                                              | 1306.64                                    |

यह सूच्य है कि उपरोक्त वर्णित कार्यों की स्वीकृति, प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुमोदन निदेशक मण्डल की 162वीं बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन में बिजनेस प्लान 2024-25 के तहत बिन्दु संख्या 1(छ) में प्राविधानित कुल धनराशि रु0 2838.00 लाख के अन्तर्गत समाहित है।

अतः आपसे सादर अनुरोध है कि उर्ध्वांकित तालिका में अंकित कार्यों को सम्पादित कराने हेतु ई-निविदा आमत्रण हेतु अनुमोदन प्रदान करना चाहें।

अधीक्षण अभियन्ता (जानपद)  
पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0  
विक्टोरिया पार्क, मेरठ

अधीक्षण अभियन्ता (जानपद)  
वि0जा0वि0मं0/मेरठ/ई-निविदा प्रकाशन  
अधीक्षण अभियन्ता (जानपद)  
विद्युत जानपद वितरण मण्डल  
न-वि0वि0मं0लि0, मेरठ